



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, 5 अगस्त, 2023

श्रावण 14, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग-9

संख्या यू०आ०-77/छ:-पु०-9-23-167जी/09-न्याय-2

लखनऊ, 5 अगस्त, 2023

अधिसूचना

प०आ०-430

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 ( अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( अधिनियम संख्या 49 सन् 1988 ) ( जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी सरकारी अधिसूचना के क्रम में राज्यपाल, नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे अपराधों, जिनमें एतदपश्चात् भारत सरकार के विशेष पुलिस अधिष्ठान द्वारा उनके न्यायालयों में आरोप-पत्र दाखिल किये जायें, के विचारण के लिये उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित न्यायालय के लिये विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती हैं और यह निदेश देती हैं कि उक्त क्षेत्र के भीतर उद्भूत होने वाले ऐसे अन्य मामलों का, जिनमें उक्त अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अन्य विशेष न्यायाधीश के समक्ष आरोप-पत्र पहले ही दाखिल कर दिये गये हों और उक्त क्षेत्र के भीतर उद्भूत होने वाले उक्त विशेष पुलिस अधिष्ठान से संबंधित ऐसे अन्य मामलों का भी, जो ऐसे किसी विशेष न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीन हों, विचारण और निस्तारण भी उनके द्वारा किया जायेगा और उनका न्यायालय गाजियाबाद स्थित विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निरोध सी०बी०आई० के रूप में अभिहित किया जायेगा ।

राज्यपाल अग्रतर नीचे अनुसूची के स्तम्भ 2 में यथा उल्लिखित विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निरोध, सी०बी०आई०, लखनऊ में कार्यरत अधिकारी को, साथ ही साथ समस्त लम्बित मामले, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ -3 में यथा उल्लिखित अधिकारिता न्यायालय के लिए भविष्य में दायर किये जा सकते हैं, का निस्तारण करने के लिये तत्काल प्रभाव से सशक्त करती हैं और भविष्य में, उक्त विशेष न्यायालय के पदधारी द्वारा प्रभार का

त्याग किये जाने पर पद में उनके उत्तरवर्ती और साथ ही साथ समस्त लम्बित मामलों जो, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में यथा उल्लिखित अधिकारिता न्यायालय के लिए भविष्य में दायर किये जा सकते हैं, का विचारण और निस्तारण करेंगे।

क्रम-संख्या	न्यायाधीश का नाम	न्यायालय का नाम
1	2	3
1	श्री प्रेमेश्वर कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पाक्सो), आगरा।	विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निरोध सी0बी0आई0, गाजियाबाद

आज्ञा से,  
संजय प्रसाद,  
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. U.O.-77/VI-P-9-23-167G/09-Nyay-2, dated August 5, 2023:

No. U.O.-77/VI-P-9-23-167G/09-Nyay-2

*Dated Lucknow, August 5, 2023*

IN exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 and sub-section (2) of section 4 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (Act no. 49 of 1988) (hereinafter referred to as the "said Act") read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in continuation of the Government notification issued in this behalf, the Governor is pleased to appoint, from the date of their taking over charge, the Additional District Judge mentioned in Column-2 of the Schedule below as Special Judge for the Court mentioned in Column-3 of the said Schedule for trial of such offences as specified in sub-section (1) of section 3 of the said Act in which hereinafter charge sheets are filed in their Courts by Special Police Establishment of the Government of India, and to direct that such other cases arising within the said areas in which charge sheets have already been filed before any other Special Judge appointed under the said Act and also such other cases arising within the said area relating to the said Special Police Establishment which are pending before such a Special Judge, shall also be tried and disposed of by them and their Court shall be designated as Special Court, Anti Corruption, CBI at Ghaziabad.

The Governor is further pleased to empower the officer mentioned in Column-2 of the Schedule below, holding the Special Court, Anti Corruption, CBI, Ghaziabad to dispose of all the pending cases as well as cases which may be filed in future for the Court of jurisdiction as mentioned in Column-3 of the said Schedule with immediate effect and in future, upon relinquishing the charge by the incumbent of the said Special Court, his successor in office will try and dispose of all pending cases as well as cases which may be filed in future for the Court of jurisdiction as mentioned in Column-3 of the said Schedule.

## SCHEDULE

Sl.No.	Name of the Judge	Name of the Court
1	2	3
1	Shri Premendra Kumar, Additional District & Sessions Judge (POCSO), Agra.	Special Court, Anti-Corruption CBI, Ghaziabad

By order,  
SANJAY PRASAD,  
*Pramukh Sachiv.*